

केंद्रीय विद्यालय संगठन (तिनसुकिया संभाग)

सत्रांत परीक्षा 19-2018-

विषयहिंदी-

कक्षाछठी-

समय 2.30-घंटे

पूर्णांक 80-

सामान्य निर्देश :

इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं |

प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है |

इस प्रश्न पत्र में चार खंड हैं - क, ख, ग और घ |

यथासंभव प्रत्येक प्रश्न के उत्तर क्रमशः दीजिये |

खंड-क (अपठित बोध)

प्रश्न-1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

सम्पूर्ण प्रकृति परोपकार पर ही आधारित है, सूर्य हमें प्रकाश देता है और बदले में कुछ नहीं माँगता। चाँद हमें शीतल चाँदनी देता है और बदले में कुछ नहीं माँगता। पृथ्वी माता के समान हमारा पालन-पोषण करती है और बदले में कुछ नहीं माँगती। वृक्ष जग को मीठे फल खिलाता है और बदले में कुछ नहीं माँगता। नदियाँ हमें शीतल जल प्रदान करती हैं और बदले में कुछ नहीं माँगती। इसी प्रकार मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह परोपकार के लिए जिए।

परोपकार की बलिवेदी पर सर्वस्व निछावर कर देना ही भारतीय संस्कृति रही है। इस संबंध में महर्षि दधीचि और राजा शिवि की कहानी उल्लेखनीय है। महर्षि दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डी तक दान में दे डाली और राजा शिवि ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना संपूर्ण अंग काटकर दान में दे दिया। महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र थे फिर भी संसार के लोगों के दुख निवारण हेतु उन्होंने राज-वैभव को त्यागकर जंगल की राह ली।

1. मानव जीवन की सार्थकता किस में है? 2
2. कैसे कह सकते हैं कि सम्पूर्ण प्रकृति परोपकार पर आधारित है? 2
3. वृक्षों को परोपकारी कहना क्यों उचित है? 2
4. नदियाँ कैसे परोपकार करती हैं? 1
5. भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता रही है? 1

प्रश्न-2. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

देखकर बाधा विविध , बहु विघ्न घबराते नहीं |
रह भरोसे भाग्य के दुःख भोग पछताते नहीं |
काम कितना ही कठिन हो, किन्तु उकताते नहीं |
भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं |
हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले |

सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले-फले ।

1. काव्यांश में किनकी चर्चा की गई है? 2
2. कैसे वीर भाग्य के भरोसे नहीं होते हैं? 2
3. कठिन से कठिन काम को करने में कौन सफलता पाते हैं? 1
4. कैसे व्यक्ति भीड़ में चंचल नहीं बने रहते? 1
5. बुरे शब्द का विलोम लिखिए । 1

खंड-ख (व्याकरण)

- प्रश्न-3. संज्ञा किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद होते हैं? 3
- प्रश्न-4. पत्थर और रस शब्दों में 'ईला' प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए । 2
- प्रश्न-5. निम्नलिखित शब्दयुग्मों की सहायता से वाक्य बनाइये। 3
(i)छोटा-बड़ा (ii)अच्छा-बुरा (iii) दिन-रात
- प्रश्न-6. रोपाई, सिंचाई और कटाई शब्दों के क्रिया रूप लिखिए । 3
- प्रश्न-7. 'खून-पसीना एक करना' और 'मोती जैसे अक्षर लिखना' मुहावरों का अर्थ लिखिए। 2
- प्रश्न-8. परबत और रस्ता शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। 2

खंड-ग (पाठ्य-पुस्तक)

- प्रश्न-9. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 5

हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सिख जाओगी। सोचो, कितने मजे की बात है। एक छोटा-सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार का छोटा-सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नयी बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो।

- (1) संसार का हाल जानने का असली तरीका कौन-सा है? 2
- (2) एक छोटे-से रोड़े से कोई नई बात कैसे मालूम हो सकती है? 2
- (3) लेखक को किस बात की आशा है? 1

- प्रश्न-10. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 2x5=10

- (1) छोटू का परिवार कहाँ रहता था ?
- (2) छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी?
- (3) प्रकृति का जादू किसे कहा गया है?
- (4) बाँस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बाँस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बाँस में नहीं पाई जाती?
- (5) लन्दन में भोज पर बुलाये जाने पर गाँधी जी ने क्या किया ?

प्रश्न-11 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

5

बड़ा बनाकर पहले हमको
तू पीछे छलती है मात !
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे
साथ नहीं फिरती दिन ! रात-
अपने कर से खिला,धुला मुख ,
धूल पोंछ,सज्जित कर गात ,
थमा खिलौने नहीं सुनाती ,
हमें सुखद परियों की बात !

1. प्रस्तुत पद्यांश जिस कविता से लिया गया है उस कविता एवं कवि का नाम लिखिए। , 1
2. माँ बच्चों को कैसे छलती है ? 1
3. छोटी बच्ची क्या चाहती है ? 1
4. बच्चों के बड़ा होने पर माँ क्या नहीं सुनाती हैं? 1
5. गात' शब्द का अर्थ लिखिए। ' 1

प्रश्न-12. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 2x5=10

- (1) झाँसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो।
- (2) कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है?
- (3) पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो।
- (4) झाँसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के कौन-कौन से शौक बताये गए हैं ?
- (5) राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की?

प्रश्न-13. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2x5=10

- (1) राजा दशरथ की रानियों के नाम लिखिए।
- (2) राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे?
- (3) लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए कौन सी बूटी मँगवायी गई?
- (4) अयोध्या नगर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
- (5) अयोध्या का कुलगुरु कौन था ?

खंड-घ (लेखन)

प्रश्न-14. निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए।

5

- (i) दीपावली (ii) अक्षरों का महत्त्व (iii) मेरा बचपन

प्रश्न-15 अपने विद्यालय के प्राचार्य को दो दिन का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए।-

अथवा

जन्मदिन पर अपने मित्र को अपने घर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए।

* * *